



## एंजेल टैक्स पर CBDT के नरिदेश

**स्रोत: इंडियन एक्सप्रेस**

**केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT)** ने यह सुनिश्चित करने के उद्देश्य से एक नरिदेश जारी किया है कि **उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्द्धन विभाग (DPIIT)** द्वारा मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप** पर **वित्त अधिनियम, 2023** में संशोधित एंजेल टैक्स प्रावधानों के तहत अनावश्यक जाँच का बोझ न पड़े।

### स्टार्ट-अप से संबंधित नए नरिदेश:

- CBDT ने अपने अधिकारियों को **DPIIT** से मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप** के लिये एंजेल टैक्स प्रावधानों की जाँच करने से परहेज करने का नरिदेश दिया है।
  - यह नरिदेश **एंजेल टैक्स के लिये जाँच नोटिस के संबंध में कई स्टार्ट-अप** द्वारा उठाई गई चिंताओं के जवाब में आया है।
- CBDT ने जाँच के तहत मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप** के संबंध में दो परदृश्यों की रूपरेखा तैयार की है:
  - **एकल-मुद्दे की जाँच:** ऐसे मामलों में जहाँ जाँच पूरी तरह से **आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib)** की प्रयोज्यता नरिधारित करने के लिये शुरू की जाती है, **मूल्यांकन अधिकारी मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान कोई सत्यापन नहीं करेंगे।**
    - इसके बदले मुद्दे के संबंध में मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप** के तर्क को संक्षेप में स्वीकार किया जाएगा।
  - **विविध-मुद्दे की जाँच:** जब एक मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप** कई मुद्दों को लेकर जाँच के दायरे में है, जिसमें एक मुद्दा आयकर अधिनियम की धारा 56 (2) (viib) के तहत भी शामिल है, तो **मूल्यांकन कार्यवाही के दौरान एंजेल टैक्स प्रावधान की प्रयोज्यता का पालन नहीं किया जाएगा।**

### एंजेल टैक्स:

- एंजेल टैक्स एक आयकर है जो **30.6%** की दर से तब लगाया जाता है जब कोई असूचीबद्ध कंपनी किसी नविशक को उसके उचित बाज़ार मूल्य से अधिक कीमत पर शेर जारी करती है।
  - **उचित बाज़ार मूल्य (Fair Market Value- FMV)** परसिंपत्तिका वह मूल्य है, जब क्रैता और वक्रैता को इसके संबंध में जानकारी होती है तथा वे बिना दबाव के व्यापार करने के लिये तैयार हो जाते हैं।
- प्रारंभ में एंजेल टैक्स केवल नविासी नविशकों द्वारा किये गए नविश पर लागू था। **वित्त अधिनियम, 2023** ने विदेशी नविशकों को भी इसमें शामिल करने के लिये इस प्रावधान का वसितार किया है।
  - इसका अर्थ यह है कि जब कोई **स्टार्ट-अप** किसी विदेशी नविशक से धन जुटाती है, तो इसे भी आय के रूप में गिना जाएगा और करधान के अधीन किया जाएगा।
    - हालाँकि **उद्योग संवर्द्धन और आंतरिक व्यापार विभाग (DPIIT)** द्वारा मान्यता प्राप्त **स्टार्ट-अप** को एंजेल टैक्स लेवी से बाहर रखा गया है।

नोट: मई 2023 में वित्त मंत्रालय ने अमेरिका, बरटिन और फ्रांस जैसे 21 देशों के नविशकों को भारतीय **स्टार्ट-अप** में अनविासी नविश के लिये एंजेल टैक्स लेवी से छूट दी।

### स्टार्ट-अप से संबंधित अन्य प्रमुख सरकारी पहल:

- **नवाचारों के विकास और उपयोग के लिये राष्ट्रीय पहल (National Initiative for Developing and Harnessing Innovations- NIDHI)**
- **स्टार्ट-अप इंडिया एक्शन प्लान (Startup India Action Plan- SIAP)**
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम को समर्थन पर राज्यों की रैंकिंग (Ranking of States on Support to Startup Ecosystems- RSSSE)**
- **स्टार्ट-अप इंडिया सीड फंड स्कीम (Startup India Seed Fund Scheme- SISFS)**

## केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (Central Board of Direct Taxes- CBDT):

- यह केंद्रीय राजस्व बोर्ड अधिनियम, 1963 द्वारा स्थापित एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में कार्य करता है।
  - यह वित्त मंत्रालय के अंतर्गत राजस्व विभाग का एक अभिन्न अंग है।
- यह भारत में प्रत्यक्ष कराधान से संबंधित नीतियों और योजना के निर्माण में योगदान देता है तथा आयकर विभाग के माध्यम से प्रत्यक्ष कर कानूनों के कार्यान्वयन की देखरेख करता है।
  - प्रत्यक्ष करों में आयकर, नगिम कर और इसी तरह की श्रेणियाँ शामिल हैं।

### UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

प्रश्न. उद्यम पूंजी का क्या अर्थ है? (2014)

- (a) उद्योगों को प्रदान की जाने वाली एक अल्पकालिक पूंजी।
- (b) नए उद्यमियों को प्रदान की गई एक दीर्घकालिक स्टार्ट-अप पूंजी।
- (c) हानि की स्थिति में उद्योगों को प्रदान की जाने वाली धनराशि।
- (d) उद्योगों के प्रतस्थापन और नवीनीकरण के लिये प्रदान की गई धनराशि।

उत्तर: (B)

व्याख्या:

- उद्यम पूंजी (Venture Capital) एक नए या बढ़ते व्यवसाय के लिये वित्त के स्रोत का एक स्वरूप है। यह आमतौर पर उद्यम पूंजी फर्मों से प्राप्त होती है जो उच्च जोखिम वाले वित्तीय पोर्टफोलियो के निर्माण में विशेषज्ञ होते हैं।
- उद्यम पूंजी के साथ उद्यम पूंजी फर्म स्टार्ट-अप में इक्विटी के बदले स्टार्ट-अप कंपनी का वित्तपोषण करते हैं।
- जो लोग इसमें निवेश करते हैं उन्हें उद्यम पूंजीपति कहा जाता है। उद्यम पूंजी निवेश को जोखिम पूंजी या रुग्ण जोखिम पूंजी के रूप में भी संदर्भित किया जाता है, क्योंकि इसमें उद्यम सफल नहीं होने पर निवेश के डूबने का जोखिम शामिल होता है और निवेश से लाभ प्राप्ति के लिये मध्यम से लंबी अवधि का समय लगता है।
- अतः विकल्प (B) सही है।

PDF Reference URL: <https://www.drishtias.com/hindi/printpdf/cbdt-directives-on-angel-tax>